

@shahjahanpupol

प्रेस नोट:- सराहनीय कार्य 16/04/2021

थाना तिलहर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी,

“दिन दहाड़े गोली चलेगी” का श्लोगन लगाकर व्हाट्सएप व फेसबुक पर स्टेटस डालने वाले

अभियुक्त पंकज को अवैध तमंचा मय 04 कारतूस तथा उसके साथी

अभियुक्त होशियार को एक अदद तमंचा मय 08 अदद कारतूस के साथ किया गिरफ्तार

श्री एस आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्री संजीव कुमार वाजपेयी अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में, श्री परमानन्द पाण्डेय क्षेत्राधिकारी तिलहर के पर्यवेक्षण में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव -2021 के मद्देनजर रखी जा रही सतृक दृष्टि के दौरान थाना तिलहर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी,

दिनांक 16.04.2021 को गश्त, शान्ति व्यवस्था, रोकथाम जुर्म/जयराम के दौरान प्राप्त सूचना के आधार पर अपने मोबाइल पर तमंचा लेकर फोटो खिचा कर दिन दहाड़े गोली चलेगी का श्लोगन लिखकर स्टेटस लगाने वाला अभियुक्त सेनेट मैरी स्कूल के पास खड़ा है अभियुक्त पंकज पुत्र रामस्वरूप निवासी मो0 बराहपत्थर थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर सेनेट मैरी स्कूल के पास थाना तिलहर से समय 11.30 बजे गिरफ्तार किया गया, जिससे पूछताछ की गयी तो बताया कि उसने फोटो में लगा तमंचा होशियार सिंह पुत्र जबर सिंह हाल निवासी बारहपत्थर थाना तिलहर का है जिसके बारे में पूछने पर बताया कि वह इस समय मो0 बारहपत्थर में ही मिलेगा अभियुक्त पंकज के बताये अनुसार अभियुक्त होशियार पुत्र जबर सिंह निवासी ग्राम ढका थाना मदनापुर जिला शाहजहाँपुर हाल निवासी मो0 बराहपत्थर को समय 11.40 बजे मो0 बाहरपत्थर में होशियार के घर के बाहर से पकड़ लिया जिसके पास से 01 अदद तमंचा मय 08 अदद कारतूस बरामद हुए अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध थाना तिलहर पर मु0अ0सं0 289/21 धारा 3/25 A ACT बनाम पंकज व मु0अ0सं0 290/21 धारा 3/25 A ACT बनाम होशियार पंजीकृत किया गया अभियुक्त को बाद विधिक कार्यवाही मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार किये गये अभि0 गण का विवरण:-

1. पंकज पुत्र रामस्वरूप निवासी मो0 बराहपत्थर थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
2. होशियार पुत्र जबर सिंह निवासी ग्राम ढका थाना मदनापुर जिला शाहजहाँपुर हाल निवासी मो0 बराहपत्थर थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर

अभियुक्त का आपराधिका इतिहास-

1. मु0अ0सं0 289/21 धारा 3/25 A ACT बनाम पंकज
2. मु0अ0सं0 290/21 धारा 3/25 A ACT बनाम होशियार

बरामदगी का विवरण –

1. एक अदद तमंचा 315 बोर मय 04 अदद कारतूस अभियुक्त पंकज से
2. एक अदद तमंचा 315 बोर मय 08 अदद कारतूस अभियुक्त होशियार से

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री हरपाल सिंह बालियान थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 श्री महेश सिंह थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
3. का0 1793 शैलेन्द्र कुमार थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
4. का0 1788 प्रिन्स चौधरी थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर

